



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1428]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2007/कार्तिक 28, 1929

No. 1428]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2007/KARTIKA 28, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2007

का.आ. 1960(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पंजाब कहा गया है) का गठन करती है जिसमें पंजाब सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|---|--|
| 1. प्रो. दलजीत सिंह,
इंजीनियरिंग और
प्रौद्योगिक संकाय के डीन,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चण्डीगढ़ | —अध्यक्ष
पर्यावरण गुणवत्ता |
| 2. इ. सुखमिंदर सिंह गिल,
मुख्य अभियंता (से.नि.),
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड,
पटियाला | —सदस्य
ई आई ए प्रक्रिया,
पर्यावरण गुणवत्ता |
| 3. श्री बिरेन्द्र जीत सिंह,
सदस्य सचिव,
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पटियाला | —सदस्य-सचिव |

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी।

3. प्राधिकरण, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है।

4. प्राधिकरण, पंजाब इस आदेश में पंजाब सरकार के लिए गठित पंजाब सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।

5. पंजाब राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता पंजाब सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पंजाब का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. डॉ. अनिल कुमार जैन,
निदेशक,
स्कूल ऑफ एजर्नी स्टडीज फॉर
एर्गीकल्चर, पी ए यू,
लुधियाना | —अध्यक्ष
पर्यावरण गुणवत्ता |
|---|-------------------------------|

2. डॉ. नीलीमा जेरथ, —सदस्य
संयुक्त निदेशक,
पंजाब राज्य विज्ञान और
प्रौद्योगिक परिषद्,
चण्डीगढ़ जीव-विज्ञान
3. डॉ. विनीत कुमार, —सदस्य
प्रोफेसर एवं रसायन
इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष,
थापर विश्वविद्यालय,
पटियाला रसायनिक सैक्टर में
परियोजना प्रबंधन
4. डॉ. एस. एस. मारवाह, —सदस्य
निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी,
पीएससीएसटी,
चण्डीगढ़ जीव-विज्ञान
5. प्रो. एस. पी. सिंह, —सदस्य
पूर्व अध्यक्ष,
पीयू बिजनेस स्कूल,
चण्डीगढ़ प्रबंधन
6. डॉ. राजीव मोहन माथुर, —सदस्य
वैज्ञानिक एफ,
हैड कैमिकल रिकवरी,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर कागज सैक्टर में
परियोजना प्रबंधन
7. डॉ. गिरीश साहनी, —सदस्य
निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ
माइक्रोबाइल टैकनोलोजी
(आईएमटीईसीएच),
चण्डीगढ़ जीव-विज्ञान
8. डॉ. मानेक कुमार, —सदस्य
प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग,
थापर विश्वविद्यालय,
पटियाला सिविल इंजीनियरिंग-
निर्माण एवं भवन
परियोजनाएं
9. श्री बाबू राम, —सचिव
वरिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर,
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, पंजाब का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा।

8. एस ई ए सी, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है।

9. एस ई ए सी पंजाब सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. पंजाब राज्य सरकार, एस ई ए सी पंजाब के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता पंजाब राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[जे-11013/43/2007-आई ए-11(1)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2007

S.O. 1960(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Punjab (hereinafter referred to as the Authority, Punjab) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Punjab as under :—

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. Daljit Singh,
Dean Faculty of
Engineering & Technology,
Punjab University,
Chandigarh | —Chairman
Environment Quality |
| 2. Er. Sukhminder Singh Gill,
Engineer-in-Chief (Retired)
Punjab State Electricity Board,
Patiala | —Member
EIA Process,
Environment Quality |
| 3. Shri Birinderjit Singh
Member Secretary,
Punjab Pollution Control
Board, Patiala | —Member-Secretary |

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Punjab shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Punjab in this order.

5. The State Government of Punjab shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Punjab as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Punjab, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Punjab (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Anil Kumar Jain,
Director,
School of Energy Studies
for Agriculture, PAU,
Ludhiana | —Chairman
Environment Quality |
| 2. Dr. Neelima Jerath,
Joint Director, Punjab
State Council for Science
& Technology,
Chandigarh | —Member
Life Science |
| 3. Dr. Vineet Kumar,
Professor & Head
Department of Chemical
Engineering,
Thapar University,
Patiala | —Member
Project Management
in Chemical Sector |
| 4. Dr. S.S. Marwaha,
Director, Bio-Technology,
PSCST, Chandigarh | —Member
Life Science |
| 5. Prof. S.P. Singh,
Ex. Chairman,
PU Business School,
Chandigarh | —Member
Management |
| 6. Dr. Rajiv Mohan Mathur,
Scientist 'F',
Head Chemical Recovery,
CPPRI, Saharanpur | —Member
Project Management
in Paper Sector |

- | | |
|--|--|
| 7. Dr. Girish Sahni,
Director,
Institute of Microbial
Technology, (IMTECH),
Chandigarh | —Member
Life Sciences |
| 8. Dr. Maneek Kumar,
Professor,
Civil Engineering,
Thapar University,
Patiala | —Member
Civil Engineering—
Construction &
Building Projects |
| 9. Shri Babu Ram,
Senior Environmental
Engineer,
Punjab Pollution Control Board | —Secretary |

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Punjab shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Punjab shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Punjab shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Punjab and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Punjab as per State rules.

[J-11013/43/2007-IA. II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'